

सावनी (SAWNEE) इलेक्ट्रिक सदस्यता कार्पोरेशन

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन

परिशिष्ट A

गैर-भेदभाव वक्तव्य

यह संस्था समान अवसर प्रदाता और नियोक्ता है

फेडरल नागरिक अधिकार कानून और यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के नागरिक अधिकार नियमों और नीतियों के अनुसार USDA, इसकी एजेंसियां, कार्यालय और कर्मचारी तथा USDA प्रोग्रामों में भाग ले रहे या लागू कर रहे संस्थानों को USDA द्वारा संचालित या वित्त प्रदान किए गए किसी प्रोग्राम या गतिविधि में जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, धर्म, लिंग, लिंग पहचान, यौन झुकाव, विकलांगता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिवार / अभिभावकों की स्थिति, एक सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम से प्राप्त आय, राजनीतिक मान्यताओं, या पूर्व नागरिक अधिकार गतिविधि के लिए प्रतिशोध या प्रतिकार करने के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित किए जाते हैं (सभी आधार सभी प्रोग्रामों पर लागू नहीं होते हैं)। उपचारों और शिकायत दर्ज करे की समयसीमाओं में प्रोग्राम या घटना के अनुसार अंतर हो सकता है।

विकलांग व्यक्तियों की जिन्हें प्रोग्राम की जानकारी के संचार के लिए वैकल्पिक माध्यमों (जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट, आडियो टेप, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, आदि) की जरूरत होती है जिम्मेदार एजेंसी या USDA के TARGET सेंटर (202) 720-2600 (वाॉस और TTY) पर सम्पर्क करना चाहिए या (800) 877-8339 पर फेडरल रिले सर्विस के माध्यम से USDA से सम्पर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम की जानकारी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध करवाई जा सकती है।

एक प्रोग्राम भेदभाव शिकायत दर्ज करने के लिए USDA प्रोग्राम भेदभाव शिकायत फार्म, AD-3027, भरें जो ऑनलाइन http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html पर और किसी भी USDA ऑफिस में मिल सकता है या USDA के पते पर एक पत्र लिखें और फार्म में मांगी गई समस्त जानकारी पत्र में उपलब्ध करवाएं। शिकायत फार्म की एक प्रति का अनुरोध करने के लिए (866) 632-9992 पर फोन करें। अपना पूरा भरा हुआ फार्म या पत्र USDA को प्रस्तुत करें, द्वारा:

- (1) मेल: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
- (2) फैक्स: (202) 690-7442; or
- (3) ईमेल: program.intake@usda.gov

USDA एक समान अवसर प्रदाता, नियोक्ता और ऋणदाता है।